



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1944 (श10)

(सं0 पटना 594) पटना, शुक्रवार, 5 अगस्त 2022

सं० 27/नि०था०-11-03/2019-सा0प्र0-11285

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

7 जुलाई 2022

श्री ओम प्रकाश प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 499/2011, तत्कालीन अपर समाहर्ता, बेगूसराय सम्प्रति निलंबित को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक-17.11.2018 को 6,00,000/रु० रिश्वत लेते समय रंगेहाथ गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी-II पटना के आदेशानुसार आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना भेजे जाने तथा उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड सं०-49/18 दिनांक-16.11.2018 दर्ज होने की सूचना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्रांक-3738 दिनांक-23.11.2018 द्वारा उपलब्ध कराते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी। उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16538 दिनांक-19.12.2018 द्वारा श्री प्रसाद को बिहार सरकारी सेवक नियंत्रण एवं अपील के नियम 9(1) क एवं ग तथा 9(2) के प्रावधानों के तहत निलंबित कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक-17.11.2018 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया। तथा उनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया निर्धारित किया गया। दिनांक 05.08.2019 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री प्रसाद दिनांक 15.08.2019 को कारामुक्त हो गए। विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15912 दिनांक-22.11.2019 द्वारा श्री ओम प्रकाश प्रसाद का निलंबन अवधि में मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया निर्धारित किया गया।

2. श्री प्रसाद दिनांक 31.07.2022 को वार्धक्य सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इनके द्वारा निलंबन अवधि के लिए मुख्यालय को पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया से स्थानान्तरित कर पटना के किसी कार्यालय में निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है, ताकि उन्हें सेवान्त लाभ प्राप्त करने में सुविधा हो सके।

3. श्री प्रसाद द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में किए गये अनुरोध की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री ओम प्रकाश प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 499/2011, तत्कालीन अपर समाहर्ता, बेगूसराय सम्प्रति निलंबित का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया से स्थानान्तरित करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रविन्द्रनाथ चौधरी,
सरकार के विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 594-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>